

23 फरवरी, 2019

सेवा समाचार

करोल बाग पांडव भवन दिल्ली: रोहिणी कोर्ट दिल्ली में सभी एडवोकेटस के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम रखा गया जिसका विषय था “Know thyself for happy living” इसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रोहिणी कोर्ट, सैकेट्री वार काऊंसिल आफ देहली, पब्लिक प्रोसीक्यूटर रोहिणी कोर्ट फोरमर प्रेजीडेन्ट रोहिणी कोर्ट वार एसोसिएशन, सैकेट्री रोहिणी कोर्ट वार एसोसिएशन दिल्ली सहित लगभग 200 एडवोकेटस ने भाग लिया।

दीप प्रज्ज्वलन में (डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रोहिणी कोर्ट) भ्राता रजनीश भटनागर जी, (डिस्ट्रिक्ट जज रोहिणी कोर्ट) भ्राता विनोद शर्मा जी, (सैकेट्री वार काऊंसिल आफ देहली) भ्राता विष्णु शर्मा जी, (पब्लिक प्रोसीक्यूटर रोहिणी कोर्ट) भ्राता पी के सिंह, (फोरमर प्रेजीडेन्ट रोहिणी कोर्ट वार एसोसिएशन) भ्राता इन्द्र सरोहा जी, (सैकेट्री रोहिणी कोर्ट वार एसोसिएशन दिल्ली) भ्राता राकेश चाहर जी ने भाग लिया।

राजयोगिनी पुष्पा बहन जी ने सदा खुश रहने की विधि स्वयं की पहचान बताकर राजयोग का अभ्यास कराया। भ्राता रजनीश भटनागर तथा भ्राता विनोद शर्मा जी ने भी मेडीटेशन का महत्व बताते हुए अपनी शुभ कामनाएं दी। कुछेक एडवोकेटस ने राजयोग सीखने की इच्छा भी व्यक्त की।

तत्पश्चात सभी के लिए मधुवन चौक, सेक्टर 8, रोहिणी सेन्टर में 3 दिन के लिए राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 30 वकीलों ने भाग लिया।

सीनियर एडवोकेट ब्रः कुः मुकेश भाई ने सफल मंच संचालन किया।